

11049 ✓

9889



झारखण्ड JHARKHAND

05AA 552959

भारतीय गैर न्यायिक चिह्न  
 कम्पनी एक्ट 1908 को धारा 43 (1) (A) के अन्तर्गत  
 जमाने की राशि है। धारकों को न्यायिक अधिकार  
 1999 की अनुसूची 1 की क. 23  
 के अन्तर्गत प्रचलन में है। यह चिह्न  
 2 कि.ग्रा. का शुल्क भुक्त करेगा।

*[Handwritten Signature]*

9/12/18

*Rajendra Kumar*  
 7.12.18



Zainab Fatima

7/12/18


संग

तलत

महमदा

अनिष्ठा

अरिबा



7/12/18

Subair chand

Lower Bazar Arichi

wife

*(Handwritten signature)*

7/12/18

*Handwritten signature*



*Zainab Fatima  
7. 12. 18*

सम्पत्ति का मूल्य

12,63,000/-

स्टाम्प ..... रुपये

*Handwritten signature*

ग्राम पशुपत्तन की भूमि घोटाला  
के अन्तर्गत लीज की शर्तों में  
बंदिता प्लॉट वर्ज नहीं है

*Handwritten signature and date 7/12*

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 7/12/2018 ई0 को रांची में इस प्रकार सम्पन्न हुआ :-

- लेख्यकारी (विक्रेता) का नाम और पता :- जैनब फातिमा पति मोहम्मद जुवैर चाँद, धर्म-इस्लाम, जाति-मोमिन, पेशा-गृहिणी, निवास स्थान-मकान संख्या-50ए, काली स्थान रोड, नियर जेवर आर्ट, थाना लोअर बाजार, जिला रांची, राज्य झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

आधार न0-2595 5736 3416

नाम दशरथ पत्नी से मिलन सिंह  
मनीष का दर/की. 317895/-  
कचरा मकान का दर/की.  
पक्का मकान का दर/की.  
अन्य का दर/की.

*अंशुभा नजनी महपत्रा अनिष्ठा अनिष्ठा*



2. लेख्यधारी (क्रेता) का नाम और पता :- रूही परवीन पिता मकसूद आलम, धर्म-इस्लाम, जाति-मोमिन, पेशा-गृहिणी, निवास स्थान-541, डा0 फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, रांची, थाना लोअर बाजार, जिला रांची, राज्य झारखण्ड, भारतीय नागरिक।  
आधार न0-5505 9524 2773, PAN-BIIPP9208C, Mob.-8825326571
3. लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र (सेल डीड) सदा सर्वदा के लिए।
4. लेख्य मूल्य :- 12,63,000/- (बारह लाख तिरसठ हजार) रूपये मात्र।
5. नाम जमीनदार :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी, शहर अंचल, जिला-रांची। जिसका सालाना मालगुजारी 1/- (एक) रूपये मात्र अलावे शेष।
6. जमीन का विवरण :- जमीन वाक मौजा-कोनका, थाना-लोअर बाजार, थाना नं0-198, वार्ड न0-15, जिला-रांची, जो जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, रांची, कार्यालय से सम्बन्धित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

<u>एम०एस० प्लॉट न०</u>	<u>रकबा</u>	<u>दर्जा</u>
402	18 कड़ी	आवासीय
403	15 कड़ी	आवासीय
<u>कुल रकबा</u>	<u>33 कड़ी</u>	

चौहद्दी

- उत्तर :- एम0एस0 प्लॉट न0-404  
दक्षिण :- एम0एस0 प्लॉट न0-402/पार्ट  
पूरब :- एम0एस0 प्लॉट न0-402/पार्ट  
पश्चिम :- एम0एस0 प्लॉट न0-400 एवं 401

विदित हो कि बिक्री जमीन को ट्रेस नक्शा में लाल रंग से रंगकर दर्शाया गया है, जो इस दस्तावेज के साथ संलग्न है एवं इस दस्तावेज का एक अभिन्न अंग है।

*Zeinab Fatima*  
7.12.18

विदित हो कि उपरोक्त जमीन लेख्यकारी की खरीदगी भूमि है, जिसे लेख्यकारी ने निबंधित विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 26.05.2018 ई0 को मोहम्मद असलम पिता स्व0 शम्सुल हक, निवास स्थान- घोष कम्पाउण्ड, शांति निवास होटल के पास, सेंट्रल स्ट्रीट, हिन्दपीड़ी, थाना-हिन्दपीड़ी, जिला-रांची, राज्य-झारखण्ड, से खरीदकर प्राप्त किये है, जिसका बुक नम्बर-1, भोलूम नम्बर-419, पेज नम्बर-579 से 628, दस्तावेज संख्या-4608/4155 वर्ष 2018 ई0 है जो निबंधन कार्यालय, रांची में दर्ज है तथा खरीदगी के पश्चात लेख्यकारी उपरोक्त जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज एवं दखलकार चली आ रही है और शांतिपूर्वक दखलकार रहते हुए आज के दिन उपरोक्त जमीन को क्रेता के नाम से निबंधित विक्रय पत्र द्वारा बिक्री कर हस्तांतरण कर रहे है, जो हर दृष्टिकोण से उचित एवं न्यायसंगत है।

#### संदर्भ

विदित हो कि विक्रेता को इस समय रूपये की अति आवश्यकता आ पड़ने के कारण उपरोक्त जमीन को बिक्री करने की बात सोचे एवं बिक्री करने की बात लोगों के बीच रखे। बिक्री की बात सुनकर क्रेता जमीन की पूरी कागजात छानबीन करने के उपरान्त उपरोक्त मूल्य में खरीदने को तैयार हुए जिसे विक्रेता सहर्ष स्वीकार किये। अब क्रेता उपरोक्त वर्णित जमीन पर शान्तिपूर्ण से दखलकार होकर एवं रहकर परम सुख भोग किया करे, इसपर विक्रेता एवं उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का हक दावा सरोकार नहीं है और न रहेगा।

अतएव इस विक्रय पत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि :-

1. उक्त कारणों से और उक्त प्रतिफल की राशि के बदले जिसकी वसूली और अदायगी इस विक्रय पत्र द्वारा विक्रेता स्वीकार वो सम्पुष्ट करते है। उक्त जमीन को विक्रेता अपने तन-मन की स्वस्थता में भलाई वो लाभ हित का विचार कर स्वतंत्र मन प्रसन्नचित बिना किसी के डराव, धमकाव, बहलाव, फुसलाव के या जोर जबरदस्ती के सब प्रकार के ऋणभार देन पावना और बंधनों से मुक्त सत्यता एवं वैद्वता को पूर्ण रूप एवं ईमानदारी से अभिपुष्ट स्वीकृत, पुर्नपुष्ट एवं प्रत्याभूत विक्रय को हस्तांतरित किया वो सौप दिया।

Zainab Futeim  
7-12-18

2. यह भी घोषित किया जाता है कि विक्रीगत जमीन सब प्रकार से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्विरोध व ऋण वगैरह से मुक्त है। यदि बाद भविष्य में उक्त जमीन में विक्रेता के स्वत्व हित हक व दावा और दखल में कोई दोष पाया जाय जिससे क्रेता को उक्त जमीन या उसके अंश से हाथ धोना पड़े तो हानि क्षति की भरपाई, क्रेता, विक्रेता की अन्य चल अचल जमीन से पूरा कर लेंगे। इसमें विक्रेता अथवा उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का कोई अनुरोध विरोध या आपत्ति नहीं होगी।
3. अब क्रेता को चाहिए कि उपर लिखी जमीन को अपने अधिकार में लेकर अपने इच्छानुसार शान्तिपूर्वक पुष्प वाटिका लगावें या कुआं खोदवायें या नलकूप लगवायें, कच्चा पक्का मकान बनावें या चाहरदिवारी करावें वो जैसा चाहें अपने उपभोग व उपयोग में लावें और वंशानुगत इसको भोग कर लाभान्वित होते रहें तथा जरूरत पड़ने पर किसी से विक्रय, बंधक, दान, लीज, आदि करें। इसमें विक्रेता अथवा उनके उत्तराधिकारियों को कोई अनुरोध, विरोध या आपत्ति नहीं है और न होगा। यदि कोई करें तो वह सरासर अन्याय व गैर कानूनी होगा।
4. और यह कि क्रेता विक्रय पत्र निबंधन के पश्चात् अपना नाम झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय (शहर) अंचल, जिला रांची में अपने नाम से दाखिल खारीज कराकर साल व साल रसीद प्राप्त किया करें।
5. यह भी विदित हो कि प्रतिफल की कुल राशि प्राप्त किये हैं। जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार व सम्पुष्ट करते हैं। अब विक्रय जमीन के मूल्य में किसी प्रकार की प्राप्ति विक्रेता को खरीदार से शेष नहीं रहा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है और ना ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है ना ही भूदान की जमीन है यह वन सीमा से बाहर है तथा बी०सी०सी०एल० या ई०सी०एल० की जमीन नहीं है।

*Zwineda Fekuma*  
7.12.18

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह जमीन आदिवासी खाते की नहीं है, और न ही आदिवासी से संबंधित है, जमीन मठ, मंदिर, गिरजा या मस्जिद की नहीं है। जमीन मसना, सरना, हड़गड़ी या पहनई की नहीं है। जमीन जमीन घोटाला या पशुपालन घोटाला की नहीं है।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता सी०एन०टी० एक्ट की धारा-46 (6) के प्रयोजन हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य नहीं है।

अतः विक्रेता अपने तन-मन की पूर्ण स्वस्थ अवस्था में रहकर बिना किसी अनुचित प्रभाव में आये क्रेता से उपरोक्त जमीन का कुल प्रतिफल राशि चुकता पाकर वो लेकर इस विक्रय पत्र में लिखी बातों को पढ़ वो पढ़वाकर, सुन वो समझ लिया और सही लिखा पाकर अपना सही ठेपा निशान बना कर क्रेता के नाम से विक्रय पत्र निबंधित कर दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहों का हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर

1. *Tanbeer Khan*  
Father Name - *Maqsood Khan*  
Address - *Kalal Toli Main*  
*Road Ranchi Jharkhand.*

*Zuined Fuzri*  
*7. 12. 18*

2. *Maqsood*  
Father Name - *Late Abdul Rauf*  
Address - *Kalal Toli Main Road*  
*Ranchi.*

लेख्यधारी (क्रेता) का फोटो, हस्ताक्षर एवं  
बायें हाथ की सभी अंगुलियों का निशान

Ruhi Perveen  
7.12.18



Zuinnel Fatma  
7.12.18

कनिष्ठा	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है के  
बायें हाथ की पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष/मेरे द्वारा लिया गया है।

टंकक : (फिरोज आलम)


ड्राफ्टकर्ता :



ruhi perveen  
7/12/18

RANCHI MUNICIPALITY, WARD NO-15 (OLD) SHEET NH-2  
PARENT WARD NO-15 (SURVEY-1922-23)  
SCALE 4" = 1 MILE

LAND SOLD OUT TO ZAINAB FATIMA W/O MOHAMMAD  
ZUBAIR. SHOWN IN RED WASHI-  
BEARING PART ON MIS. PLOT NO-402 & 403  
MARKED SUB PLOT NO-402/PART & 403  
M/HOLDING NO-  
TOTAL AREA MIS. PLOT NO-402- 18.00 KARI (MORE OR LESS)  
" " MIS. PLOT NO-403- 15.00 KARI "  
TOTAL AREA----- 33.00 KARI (MORE OR LESS)



Zainab Fatima  
 7.12.18.

T. By.  
 F. J. ...  
 am  
 Ranchi

Authorized Under Notaries Act, 1956  
& Notaries Rules 1956  
Jharkhand Ranchi (India)



मैं रुही परवीर पति-मोहन कुमार झा जाति-कोकीर  
पेशा-उद्योगी निवास स्थान-फ्लो. 23, ग्राह. थाना-राँची नगर  
जिला-राँची झारखण्ड, भारतीय नागरिक शपथपूर्वक घोषणा  
करती हूँ कि निम्नलिखित विवरण सत्य एवं सही है -

0.7 DEC 2018

1. यह कि मैं मौजा-डोडाका थाना-राँची नगर थाना नं-198, जिला-राँची स्थित खाता नं-M/S प्लॉट नं-402, 403 रकबा-33 अ. 0 डीसमील जमीन खरीद रही हूँ जिसका मूल्य 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) के अन्दर है।
2. यह कि मैं, संचिका संख्या-13/नि.वि. (महिला शुल्क विमुक्ति 13/2017) के अन्तर्गत जमीन निबंधन में आज से पूर्व छूट का फायदा नहीं ली हूँ और न ही आज के बाद इस छूट का फायदा उठाऊंगी।
3. यह कि इस शपथ पत्र में दी गई जानकारी सत्य है।

यह शपथ पत्र आज दिनांक 0.7 DEC 2018 ई० को राँची में सम्पन्न हुआ।

उपरोक्त शपथकर्ता रुही परवीर की पहचान अधिवक्ता, मोहन कुमार झा ने किया और पाया कि उपरोक्त सभी बातें शपथकर्ता के अनुसार सही वो सत्य है।

*Ruhi Parveen*

शपथकर्ता

पहचानकर्ता

*Mohan Kumar Jha*  
(अधिवक्ता)

Signature attested on identification of lawyer.



*07/12/18*  
NOTARY PUBLIC  
RANCHI







निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.48Token Date: 07/12/2018  
Party Name: Ruhi Parveen  
Father/Husband Name:Maqsood Alam  
(VENDEE)  
541 Dr.Fateullah Lane,Main Road, Lower Bazar, Ranchi

Deed Type: Sale Deed

Party Details	
Name :	Ruhi Parveen
Gender :	F
DOB :	15-06-1992
C/o :	D/O: Md.Maqsood Alam
District :	Ranchi
House/Building No. :	541
Locality :	Ranchi (Main Road) Lower Bazar
Pincode :	834001
Post Office :	
State :	Jharkhand
Village/Town/City :	Ranchi G.P.O.
Aadhaar No :	xxxxxxxx2773
Photo :	

  
Registering Officer

Party Signature

*Ruhi Parveen.*


Operator  Signature



निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.48Token Date: 07/12/2018  
Party Name: Tanweer Alam  
Father/Husband Name:Md. Maqsood Alam  
(Identifier)  
541 Dr.Fateullah Lane,Main Road, Lower Bazar, Ranchi

Deed Type: Sale Deed

Party Details	
Name :	Tanweer Alam
Gender :	M
DOB :	10-05-1987
C/o :	S/O: Md. Maqsood Alam
District :	Ranchi
House/Building No. :	541
Locality :	Ranchi (Main Road) Lower Bazar
Pincode :	834001
Post Office :	
State :	Jharkhand :
Village/Town/City :	Ranchi G.P.O.
Aadhaar No :	xxxxxxxx0994
Photo :	

Registering Officer

Party Signature


Operator's Signature



निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.48Token Date: 07/12/2018  
Party Name: Jainab Fatima  
Father/Husband Name:Md. Jubair Chand  
(VENDOR)  
H.No.50/A Kali Sthan Road, Near Jewar Art, Lower Bazar, Ranchi

Deed Type: Sale Deed

Party Details	
Name :	Zainab Fatima
Gender :	F
DOB :	10-10-1987
C/o :	D/O Mohammad Zubair Chand
District :	Ranchi
House/Building No. :	HOUSE NO.-50A
Locality :	THANA-LOWER BAZAR
Pincode :	834001
Post Office :	
State :	Jharkhand
Village/Town/City :	Ranchi G.P.O.
Aadhaar No :	xxxxxxxx3416
Photo :	

Registering Officer

Party Signature

Operator Signature

Zainab Fatima



निबंधन विभाग, झारखंड,  
Ranchi  
जांच पर्या-सह घोषणा पत्र (नियम 114)

Token No. 48

Token Date/Time: 07/12/2018 11:59:28.

Document Type	Sale Deed	Presenter	Jainab Fatima	Date of Entry	07/12/2018
Presenter Name & Address	H.No.50/A Kali Sthan Road Near Jewar Art Lower Bazar Ranchi	DOE		Total Pages	48
Stampable Doc. Value	1263000	Stamp Value	20	Book	1
Document/Transaction Value	1263000	Serial /Deed No.	/	CNO/PNO	
Special Type		Old Serial No.	/		
Remarks / Other Details		App ID	285398	e-Stamp Cert. No.	

Anchal	Tn. No.	Wrd/Hk	Mauza	Kh. No.	Plot No.	Regl. Vol	Regl. Pno	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No.	ULB	Category	Area	Min. Value
Ranchi Shahr	198	15	Konka	00	402	1	1042	MSP	Ms Plot No-404	Ms Plot No-402/ Part	Ms Plot No-400 & 401	Ms Plot No-400 & 401	0150002018000A9	RANCHI MUNICIPAL CORPORATION	U_RES	1.85 Decimal	588105.75
Ranchi Shahr	198	15	Konka	00	403	1	1042	MSP	Ms Plot No-404	Ms Plot No-402/ Part	Ms Plot No-400 & 401	Ms Plot No-400 & 401	0150002018000A9	RANCHI MUNICIPAL CORPORATION	U_RES	1.54 Decimal	489556.3

Other Property Details:

Party Details:

Party Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F 60	Mobile	Aadhar	Pres. Address	Perm. Address	PAN Verified
VENDOR	Jainab Fatima	Mr. Jubair Chand	Housewife	पति	मोमीन	Female	AJDPF8900N	xxxxxxxx71	xxxxxxxx3418	H No 50/A Kali Sthan Road, Near Jewar Art, Lower Bazar, Ranchi	H No 50/A Kali Sthan Road, Near Jewar Art, Lower Bazar, Ranchi	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDEE	Ruhi Parween	Maqsood Alam	Housewife	पिता	मोमीन	Female	BIIPP9208C	xxxxxxxx15	xxxxxxxx2773	541 Dr Fateullah Lane, Main Road, Lower Bazar, Ranchi	541 Dr Fateullah Lane, Main Road, Lower Bazar, Ranchi	<input checked="" type="checkbox"/>
Identifier	Tanweer Alam	Mr. Maqsood Alam	Business	पिता	मोमीन	Male		xxxxxxxx15	xxxxxxxx0994	541 Dr. Fateullah Lane, Main Road, Lower Bazar, Ranchi	541 Dr. Fateullah Lane, Main Road, Lower Bazar, Ranchi	<input type="checkbox"/>

Fee Details:

SN.	Fee Name	Net Amount
1	SP	720.00
2	PR	0.94
3	LL	2.50
4	A1	0.00
	Total	723.44

Zainab Fatima

Holding Details provided by the user has been mutated in the name of -OCCUPIER RUHI PARWEEN

Register/Details provided by the user has been mutated in the name of --Name: मो. इब्राहीम उर्फ निचा, Address: , C/o: अनवर अली

Disclaimer: I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same. And the information provided by me are true to itself. Information provided by me are true to itself.

The details of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.

Ruhi Parween.  
Signature's of Executant & Claimant

उपर्युक्तदिये दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप है।

*Zainab Fatima*  
दस्तावेज में अंकित हस्ताक्षर

*Zainab Fatima*  
प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर डाटा इंद्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में कंप्यूटर फॉर्म के अनुरूप डाटा इंद्रि की गई है।

उपर्युक्त Jainab Fatima ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया  
जिसकी पहचान Tanweer Alam पिता Mr Maqsood Alam  
निवासी Lower Bazar पेशा Bun ने की।

e



निबंधन विभाग, झारखंड  
रांची

Token No.48 Token Date: 07/12/2018  
Serial/Deed No./Year :11049/9889/2018  
Deed Type: Sale Deed

SN.	Party Details	Photo	Thumb
1	<b>Jainab Fatima</b> Father/Husband Name:Md. Jubair Chand (VENDOR) H.No.50/A Kali Sthan Road, Near Jewar Art, Lower Bazar, Ranchi		
2	<b>Ruhi Parween</b> Father/Husband Name:Maqsood Alam (VENDEE) 541 Dr.Fateullah Lane,Main Road, Lower Bazar, Ranchi		
3	<b>Tanweer Alam</b> Father/Husband Name:Md. Maqsood Alam (Identifier) 541 Dr.Fateullah Lane,Main Road, Lower Bazar, Ranchi		

Book No. 1  
Volume 1002  
Page 575 To 622  
Deed No 11049 / 9889  
Year 2018  
Date 07/12/2018

Registering Officer

Signature of Operator



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP140112713

## नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	शहर	हत्का	हत्का-02	
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	29	पृष्ठ संख्या वर्तमान	87	धाना न.	198	
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/राजस्व धाना न.	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिपूत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगान
12713	1133 /R27 2022 - 2023	कोनका/198	राँची	15/12/2022	By Sale Registration Deed 9889 Dated 07/12/2018	0 5 92 0 5 92	0 402 1.8 डिसमीत 0 403 1.5 डिसमीत	20
केता का नाम :		जमाबंदी रैयत का नाम :			विक्रेता का नाम :			
(RUHI PARWEENपिता-MAQSOOD ALAM, जाति----- पता-DR FATEULLAH LANE MAIN ROAD PS LOWER BAZAR RANCHI)		श्री मोहन प्रसाद विश्वकर्मा-पिता-बलदेव प्रसाद विश्वकर्मा			JAINAB FATIMA, पति-MD JUBAIR CHAN पता-KALI STHAN ROAD NEAR JEWAR / BAZAR RANCHI			
राजस्व कर्मचारी हत्का-02 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित। यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।								
Signature valid						Digitally signed by Amit Bhagat अंचलाधिकारी शहर		

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।

शहर   कोनका   198   RUHI PARWEEN		
साता संख्या	खेसारा संख्या	रकबा (एकड़ में)
0	402,403	0 एकड़ 3.3 दिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	ताफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	-------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफरील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2024-2025)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	20.00				20.00	
गुजारी (भावली)	5.00				5.00	
सेस	10.00				10.00	
सूद	10.00				10.00	
मुतफरकात	4.00				4.00	
मीजान	49.00				49.00	

तफरील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल (2024-2025)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)					20.00	
गुजारी (भावली)					5.00	
सेस					10.00	
सूद					10.00	
मुतफरकात					4.00	
मीजान अदायकारी					49.00	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Forty Nine Rupees

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 49.00

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 02-07-2024

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।